

तकनीकी एवं अन्य जानकारियां

1. राजभाषा नीति/नियम एवं अधिनियम -

इस हेतु राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in देखें जिस पर राजभाषा अधिनियम / नियम एवं राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश उपलब्ध हैं।

2. राजभाषा कार्यान्वयन समितियां -

मंडल पर राजभाषा प्रयोग-प्रसार बढ़ाने और उसकी आवधिक समीक्षा हेतु सात राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है -

क्र.सं.	समिति का नाम	अध्यक्ष
1.	मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर	मंडल रेल प्रबंधक
2.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर	स्टेशन निदेशक, जयपुर
3.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बांदीकुई	वरि.मंडल चिकित्सा अधिकारी
4.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अलवर	सहायक मंडल इंजीनियर
5.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रेवाडी	वरि.मंडल चिकित्सा अधिकारी
6.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फुलेरा	वरि. मंडल चिकित्सा अधिकारी
7.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सीकर	सहायक मंडल इंजीनियर

3. हिंदी पुस्तकालयों की स्थिति -

मंडल स्तर पर कुल 09 हिंदी पुस्तकालय गठित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है -

क्र.सं.	पुस्तकालय का नाम	स्थान
1.	महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी पुस्तकालय	मंडल कार्यालय, जयपुर
2.	जयशंकर प्रसाद हिंदी पुस्तकालय	रेलवे स्टेशन, जयपुर
3.	सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' हिंदी पुस्तकालय	रेलवे सुरक्षा बल बैरक, जयपुर
4.	महादेवी वर्मा हिंदी पुस्तकालय	कोच केयर कॉम्प्लेक्स, जयपुर
5.	प्रेमचंद हिंदी पुस्तकालय	रेलवे सीनियर सैकंडरी स्कूल, बांदीकुई
6.	मैथिलीशरण गुप्त हिंदी पुस्तकालय	सहा.मंडल इंजीनियर कार्या. अलवर
7.	रांघेय राघव हिंदी पुस्तकालय	रेलवे चिकित्सालय, रेवाड़ी
8.	तुलसीदास हिंदी पुस्तकालय	रेलवे स्टेशन, फुलेरा
9.	सूरदास हिंदी पुस्तकालय	रनिंग रूम, रेलवे स्टेशन, सीकर

समाचार बुलेटिन तथा राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन -

मंडल पर 'मरुगंधा' नामक वार्षिक हिंदी पत्रिका एवं मंडल की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देने के लिए त्रैमासिक समाचार बुलेटिन का प्रकाशन किया जाता है ।

क्षेत्रीय एवं मंडल राजभाषा बैठकों का आयोजन

1. क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक महाप्रबंधक महोदय की अध्यक्षता में होती है, जिसमें मंडल के अपर मुराधि भाग लेते हैं ।
2. मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सदस्य कार्यालय भी है, जिसकी प्रत्येक छमाही बैठक में सहभागिता की जाती है ।
